

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर 2015-भाद्र 27, शके 1937

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व के दस्तावेजों और पासपोर्ट में डॉ. राजेश कुमार अंकित है. एफीडेविड द्वारा मेरा नाम उपनाम सम्मिलित करने के बाद डॉ. राजेश कुमार पिप्पल हो गया है. भविष्य में मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम डॉ. राजेश कुमार पिप्पल पढ़ा जावे एवं इसी नाम से मुझे जाना-पहचाना जाकर दर्ज किया जावे.

पुराना नाम :

( राजेश कुमार )

(259-बी.)

नया नाम :

( राजेश कुमार पिप्पल )

एफ-2, तितिक्षा अपार्टमेन्ट,  
76, लक्ष्मीबाई कॉलोनी, ग्वालियर (म.प्र.).

#### नाम परिवर्तन

मैं, पूर्व में अनार कली पुत्री श्री एम. बी. मिश्रा, पत्नी श्री एन. आर. तिवारी के नाम से जानी जाती थी. अब मुझे अनार कली उर्फ आरती तिवारी पत्नी श्री एन. आर. तिवारी के नाम से जानी व पढ़ी जावे.

पुराना नाम :

( अनार कली )

पुत्री श्री एम.बी. मिश्रा

(333-बी.)

नया नाम :

( अनार कली उर्फ आरती तिवारी )

पत्नी श्री एन. आर. तिवारी  
ए/3, कम्फर्ट लेक साईड चैलेट, चूनाभट्टी,  
कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.).

#### CHANGE OF NAME

This is to bring to the public notice that I Ann Theressa Jose, also known as Ann Jose is one and the same person here by for all records.

Old Name :

( ANN JOSE )

(334-B.)

New Name :

( ANN THERESSA JOSE )

W/o Jose Edicheria  
Add.:- F-88, Rajat Jayanti Complex,  
Scheme No. 54, Vijay Nagar,  
Indore (M. P.).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री कु. अमृता सिंह की 10 एवं 12 सी.बी.एस.ई. बोर्ड की अंकसूची एवं बोर्ड प्रमाण-पत्र में मुझ शपथकर्ता (पिता) का नाम जगराम सिंह गौतम अंकित है. यह कि मुझ शपथकर्ता के अन्य सभी दस्तावेजों में पेनकार्ड, आधार कार्ड में मुझ शपथकर्ता का नाम जगराम सिंह अंकित है जो कि सही है. यह कि मुझ शपथकर्ता को भविष्य में जगराम सिंह गौतम के स्थान पर सही नाम जगराम सिंह के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( जगराम सिंह गौतम )

(340-बी.)

नया नाम :

( जगराम सिंह )

पुत्र-हरवंशलाल,

पता-ए 417, आनन्द नगर, बहोड़ापुर,

ग्वालियर (म.प्र.).

**CHANGE OF NAME**

I, Asad Siddiqui S/o Mr. Ishraq Ahmad Siddiqui Age 30 Year Occupation Govt. Service Permanent Address H.No. 137, Gautam Nagar, Near DIG Bungalow, Bhopal, Presently Residing H.No. 119, Anupam Nagar Extension, City Centre, Gwalior, Solemnly affirms & declare as follows.—

1. That I am residing at aforementioned address and my Nationality is Indian.
2. That my name Asad Siddiqui (New Name) previously called Mohd. Asad Alam (Old Name) I wholly renounce/ relinquish and abandon the use of my former name Mohd. Asad Alam and in place thereof, I assume the name Asad Siddiqui from the date of publication.
3. That I Expressly authorize and request all persons in general and relatives and friends in particular, at all times hereafter to designate and address me, my wife, my children and remitter issue by such assumed name/Surname of Asad Siddiqui.
4. That, this affidavit is submitted in the abovementioned facts and to change in my name.

Old Name :

( MOHD. ASAD ALAM )

(342-B.)

New Name :

(ASAD SIDDIQUI )

119, Anupam Nagar Extension, City Centre,

Gwalior (M. P.).

**आम सूचना**

फर्म मे. गोल्डन स्टोन्स, हरपालपुर जो दिनांक 18-11-2010 को निष्पादित की गई थी जिसमें भागीदार श्री सुनील कुमार जैन पुत्र बालचन्द्र जैन, विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल, संजय गुप्ता पुत्र श्रीराम गोपाल गुप्ता, राजा भाई सिंह चौरसिया पुत्र सर्वनाम सिंह चौरसिया थे. दिनांक 30-05-2015 को नये भागीदार श्री विनायक श्रीवास्तव, सुधीर खरे, प्रदीप खरे फर्म में शामिल हुये हैं व तीन भागीदार विनोद कुमार अग्रवाल, संजय गुप्ता व राजा भाई सिंह चौरसिया फर्म से बाहर हो गये हैं. सर्व-साधारण को सूचित हो.

द्वारा

राकेश शर्मा,

(एडवोकेट)

छतरपुर.

(335-बी.)

**आम सूचना**

फर्म मे. प्रीमियम स्टोन्स, हरपालपुर जो दिनांक 18-11-2010 को निष्पादित की गई थी जिसमें भागीदार श्री सुनील कुमार जैन पुत्र बालचन्द्र जैन, विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल, दिनेश चन्द्र सिंघल पुत्र श्री चतुर्भुज सिंघल, राजा भाई सिंह चौरसिया पुत्र सर्वनाम सिंह चौरसिया थे. दिनांक 30-05-2015 को नये भागीदार श्री विनायक श्रीवास्तव, सुधीर खरे, प्रदीप खरे फर्म में शामिल हुये हैं व तीन भागीदार विनोद कुमार अग्रवाल, दिनेश चन्द्र सिंघल व राजा भाई सिंह चौरसिया फर्म से बाहर हो गये हैं. सर्व-साधारण को सूचित हो.

द्वारा

राकेश शर्मा,

(एडवोकेट)

छतरपुर.

(336-बी.)

**PUBLIC NOTICE FOR ADMISSION OF PARTNER**

Notice is hereby given to public that our firm name M/s VIDHYA RAJ DAIRY AND FARMS registered on 6<sup>th</sup> day of July, 2015 is introducing the new partner Mr. Anurag Gupta Son of Mr. Pramod Kumar Gupta resident of FH-373, Scheme No. 54, Indore from 2<sup>nd</sup> day of December, 2014 in our Partnership Firm.

For : Vidhya Raj Dairy And Farms,

**AKANKSHA KAKKAR**

(Partner)

(337-B.)

**PUBLIC NOTICE FOR RETIREMENT OF PARTNERS**

Notice is hereby given to public that with effect from 13<sup>th</sup> August 2015 Mr. Aditya Maheshwari and Mrs. Jyoti Puranik partners have retired from the partnership firm "M/s RAJLAXMI HOUSING" registered on 17<sup>th</sup> day of April, 2012.

For : Rajlaxmi Housing,

**MAHIPAL SINGH PARIHAR**

Partner (Continuing).

(338-B.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एस. के. ग्रुप्स, हाउस नं. 121, वार्ड नं. 13, ग्राम बंजारी, पोस्ट न्यू बंजारी, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म.प्र.) एक पंजीकृत भागीदारी फर्म है, जिसका पंजीयन क्रमांक री. सं.-68, सन् 2005-2006 दिनांक 24-11-2005 है. इस भागीदार फर्म के पार्टनर मनोज कुमार सिंह, अरविन्द कुमार सिंह, सरोज सिंह हैं. पार्टनर अरविन्द कुमार सिंह का नाम अरविन्द सिंह चौहान शैक्षणिक अभिलेख के आधार पर संशोधित कर परिवर्तित पार्टनरशिप डीड में दिनांक 28-08-2015 से प्रविष्ट कर लिया गया है.

फर्म निरंतर कार्यशील एवं प्रभावशील है.

**मनोज कुमार सिंह**

(पार्टनर)

**अरविन्द सिंह चौहान**

(पार्टनर)

**सरोज सिंह**

(पार्टनर)

(339-बी.)

**आम सूचना बाबत**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मे. विन्ध्य सिरेमिक्स जो कि 55, औद्योगिक क्षेत्र, सतना में स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 652, दिनांक 18 अगस्त, 1987 द्वारा फर्म के रजिस्ट्रार इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा 58(1) द्वारा पंजीकृत है. इस फर्म में मेरे पिता श्री शंकर प्रसाद ताम्रकार जी एवं मैं योगेश कुमार ताम्रकार भागीदार थे, दिनांक 14 जुलाई, 2015 को मेरे पिता जी की मृत्यु हो जाने के कारण आज दिनांक 14 जुलाई, 2015 से निम्न भागीदार सम्मिलित हो रहे हैं.

जिनके नाम निम्नानुसार हैं—

1. श्री योगेश कुमार ताम्रकार
2. श्री मयंक ताम्रकार
3. श्री जयदेव ताम्रकार
4. पद्मा मर्केन्डाइज प्रा. लि.

For : Vindhya Ceramics,

**योगेश कुमार ताम्रकार**

(भागीदार)

(341-बी.)

**विविध****न्यायालयों की सूचनाएं**

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, परगना-गुना**

प्र.क्र. 06 बी-113/2014-15.

गुना, दिनांक 04 सितम्बर, 2015

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सीमन्धर कुन्द कुन्द कहान दिगम्बर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, गुना मध्यप्रदेश द्वारा कमल कुमार जैन पुत्र भंवरलाल जैन, अध्यक्ष के अभिभाषक अमित कुमार जैन की ओर से श्री सीमन्धर कुन्द कुन्द कहान दिगम्बर जैन स्वाध्याय

मंदिर ट्रस्ट, गुना, मध्यप्रदेश को लोक न्यास के रूप में पंजीयन हेतु एक आवेदन मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा-4 व 5 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त आवेदन के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति एवं संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह प्रकरण में नियत दिनांक 23 सितम्बर, 2015 तक अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उक्त दिनांक निकल जाने के उपरांत किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 04 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई।

(498)

प्र.क्र. 5 बी-113/2014-15

गुना, दिनांक 6 अगस्त, 2015

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विपश्यना लोक न्यास, गुना, हनुमान कॉलोनी, गुना, द्वारा-श्री रामस्वरूप भारती, अध्यक्ष विपश्यना लोक न्यास, गुना, नि. हनुमान कॉलोनी, गुना एवं श्री राजकुमार रघुवंशी, सचिव विपश्यना लोक न्यास हीराबाग, कॉलोनी, गुना की ओर से मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा-9 के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक-3 बी-113/09-10 विपश्यना लोक न्यास में परिवर्तन हेतु एक आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि विपश्यना लोक न्यास गुना का पंजीयन दिनांक 15 मई, 2013 को किया गया। इस सम्बन्ध में जिस व्यक्ति ने केन्द्र के लिये जमीन दान में दी है वह न्यास के किसी भी पद पर नहीं रहेंगे। दूसरे आचार्य भी किसी पद पर कार्य नहीं करेंगे। इन निर्देशों का पालन करते हुये विपश्यना न्यास पदाधिकारियों एवं सदस्यों की बैठक बुलाई गई उसके अनुसार श्री राजकुमार रघुवंशी ने न्यास के सचिव पद से तथा रामस्वरूप भारती ने अध्यक्ष पद से त्याग-पत्र प्रस्तुत किये तथा उनके स्थान पर श्री सूरज प्रसाद अग्रवाल को अध्यक्ष पद के लिये एवं श्री वीरेन्द्र सिंह को सचिव पद के लिये चयन किया गया है तथा लोक न्यास का वर्तमान पता श्री रामस्वरूप भारती हनुमान कॉलोनी, गुना के स्थान पर श्री वीरेन्द्र सिंह रघुवंशी सचिव, विपश्यना केन्द्र पगारा, जिला गुना रहेगा। इस प्रकार उपरोक्त नवीन कार्यकारिणी के अनुसार पंजीयन में संशोधन को अभिलेख पर लिये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त आवेदन के सम्बन्ध में जिस किसी को कोई आपत्ति है तो वह प्रकरण में नियत दिनांक 30 अगस्त, 2015 तक अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उक्त दिनांक निकल जाने के उपरांत किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 06 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई।

(498-A)

बी. डी. द्विवेदी,  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन

प्र.क्र. 11/बी-113/2014-15.

उज्जैन, दिनांक 4 सितम्बर, 2015

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास, उज्जैन

जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि आवेदक प्रबंध न्यासी अध्यक्ष—श्री दिनेश श्रीवास्तव पिता श्री चन्द्रप्रकाश श्रीवास्तव, निवासी-48/1, धोबी गली नं. 2, निकास चौराहा, उज्जैन आदि ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट

की सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 21 सितम्बर, 2015 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 21 सितम्बर, 2015 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन,)

न्यास का नाम	:	स्वर्णिम भारत मंच, उज्जैन.
कार्यालय	:	48/1, धोबी गली नं. 2, निकास चौराहा, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	5,000/- नगद है.

(502)

शितिज शर्मा,  
पंजीयक एवं डिप्टी कलेक्टर.

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास बण्डा, जिला सागर

पेशी दिनांक 21 सितम्बर, 2015

प्र.क्र. /बी-113/2013-14.

मौजा हीरापुर तह. शाहगढ़, जिला सागर

क्र./क/ /रीडर-1/2015.—एतद्द्वारा सर्व-साधारण को जरिये इशतहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री श्री 1008 श्री देव जानकी रमण जी बांके बिहारी मंदिर के मुहत्तमकार नियुक्ति हेतु आवेदक राजेश कुमार असाटी पिता स्व. चन्द्रभूषण असाटी साकिन हीरापुर, तहसील शाहगढ़, जिला सागर के मुहत्तमकार नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र व समिति गठन किये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार शाहगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया गया है। उक्त मंदिर का ट्रस्ट गठन कर पंजीयन हेतु मंदिर समिति द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	प्रस्तावित नाम	पद नाम
1	2	3
1.	श्री संतोष कुमार पिता स्व. बाबूलाल असाटी सा. हीरापुर, तह. शाहगढ़	मुहत्तमकार
2.	श्री राजेश कुमार पिता स्व. चन्द्रभूषण असाटी सा. हीरापुर, तह. शाहगढ़	अध्यक्ष
3.	श्री लखनलाल पिता नारायणप्रसाद असाटी सा. हीरापुर, तह. शाहगढ़	उपाध्यक्ष
4.	श्री सत्यनारायण पिता स्व. हरगोविन्द प्रसाद असाटी सा. हीरापुर	सचिव
5.	श्री बांकेबिहारी पिता स्व. उत्तमचंद असाटी सा. हीरापुर, तह. शाहगढ़	कोषाध्यक्ष

1	2	3
6.	श्री बृजमोहन पिता स्व. बाबूलाल असाटी सा. हीरापुर, तह. शाहगढ़	सदस्य
7.	श्री जगदीश प्रसाद पिता स्व. मनोहर लाल असाटी सा. हीरापुर, शाहगढ़	सदस्य
8.	श्री पुरुषोत्तम पिता स्व. चन्द्रभूषण असाटी सा. हीरापुर, तह. शाहगढ़	सदस्य
9.	श्री हल्केराम पिता स्व. छोटेलाल असाटी सा. हीरापुर, तह. शाहगढ़	सदस्य
10.	श्री अभिषेक पिता स्व. श्याम सुन्दर असाटी सा. हीरापुर, तह. शाहगढ़	सदस्य
11.	श्री मुन्नालाल पिता स्व. बालकिशन असाटी सा. हीरापुर, तह. शाहगढ़	सदस्य

श्री श्री 1008 श्री देव जानकी रमण बांके बिहारी जी मंदिर के नाम मौजा हीरापुर में स्थित भूमि ख. नं. 807, 812 रकबा 1.01, 0.28 कुल रकबा 1.29 हेक्टर मंदिर व प्रबंधक कलेक्टर महोदय, सागर के नाम दर्ज है एवं मौजा रामपुर में स्थित भूमि ख. नं. 35, 185, 190, 281, 364 रकबा 0.18, 2.05, 0.55, 1.00, 0.22 कुल रकबा 4.00 हे. भूमि जो मंदिर के नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में श्री जानकी रमण मंदिर मुह. चूरामन पिता गोवधन सा. देह प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर के नाम दर्ज है. पूर्व मुहत्तमकार चूरामन के फौत होने पर आवेदक द्वारा स्वयं को मुहत्तमकार नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. जिसके अनुसार श्री संतोष कुमार पिता स्व. बाबूलाल असाटी सा. हीरापुर, तह. शाहगढ़, जिला सागर को मुहत्तमकार नियुक्ति किये जाने एवं समिति का गठन सारणी के अनुसार किया जाना है.

जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो या अपना सुझाव देना चाहते हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति या सुझाव इस न्यायालय में पेशी दिनांक 21 सितम्बर, 2015 को न्यायालयीन समय में स्वयं या अपने-अपने वैद्य अधिकृत व्यक्ति/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. बाद म्याद गुजरने पर आपत्ति या सुझाव को स्वीकार नहीं किया जावेगा.

इशहार आज दिनांक 27 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

(503)

बी. बी. पांडे,  
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय परिसमापक सहकारी समितियां, जिला सीहोर

दिनांक 1 सितम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र. परि./2015/1.—उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक/परि./2015/731, दिनांक 04 अगस्त, 2015 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	राजीव गांधी कुक्कुट पालन सहकारी संस्था, आष्टा	1410/28-07-2008	731/04-08-2015
2.	महावीर प्रा. सह. उप. भण्डार, नेहरू कॉलोनी, सीहोर	1365/11-04-2011	731/04-08-2015
3.	कृषक विकास बीज उत्पा. सह. संस्था, खण्डवा श्यामपुर	1559/21-09-2011	731/04-08-2015
4.	खुशहाल किसान बीज उत्पा. सह. संस्था, लसूडिया	1561/21-09-2011	731/04-08-2015

अतः मैं, उमेश मिश्रा, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर उक्त संस्थाओं का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से 2 माह की समयावधि में मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नकदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(500)

उमेश मिश्रा,  
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

दिनांक 1 सितम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1.—उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक/परि./2015/731, दिनांक 04 अगस्त, 2015 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	बीज उत्पा. व प्रक्रिया सहकारी संस्था, नौ गाँव	1375/13-06-2007	731/04-08-2015
2.	बीज उत्पा. व प्रक्रिया सहकारी संस्था, कान्याखेड़ी	1376/13-06-2007	731/04-08-2015
3.	गुरु कृपा बीज उत्पा. व प्रक्रिया सहकारी संस्था, वासुदेव	1578/24-10-2011	731/04-08-2015
4.	अभिषेक बुनकर सह. संस्था मर्या., बरखेड़ा हसन	786/24-11-1980	731/04-08-2015
5.	बहुउद्देशीय क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., बुधनी	1470/06-03-2010	731/04-08-2015

अतः मैं, डी. के. भारद्वाज, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर उक्त संस्थाओं का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से 2 माह की समयावधि में मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नकदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(500-A)

डी. के. भारद्वाज,  
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करोदिया, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन का पंजीयन क्रमांक 1078, दिनांक 13 जनवरी, 1997 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2013/1338, दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. के. रोमडे, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2015 को सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित की गई. जिसमें आगामी दो वर्षों की कार्ययोजना बनाकर संस्था को पुनर्जीवित हेतु निर्णय लिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/पन्द्रह/1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा अधिनियम-69 (4) के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदस्यों के व्यापक हित में दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करोदिया, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन का पंजीयन क्रमांक 1078, दिनांक 13 जनवरी, 1997 निम्न शर्तों के साथ पुनर्जीवित किया जाता है.

1. समिति की प्रस्तुत कार्ययोजना अनुसार अपना कार्य व्यवसाय समिति के उपविधि के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगी एवं प्रगति से कार्यालय को अवगत कराएगी.

2. समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दो माह के भीतर अंकेक्षण हेतु संस्था के वित्तीय पत्रक एवं अन्य अभिलेख कार्यालय को अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगी.
3. समिति की तदर्थ प्रबंधकारिणी समिति तीन माह के भीतर निर्वाचन कराये जाने हेतु विधिवत प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत करेगी.
4. नामांकित अवधि में संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार संचालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.
5. समिति की पुरानी लाभ-हानि एवं समस्त लेनदारी-देनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी समिति की होगी.
6. समिति की नामांकित प्रबंधकारिणी निर्वाचन होने श्री आर. के. रोमडे, सहकारी निरीक्षक के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगी एवं प्रत्येक गतिविधियों से अवगत करायेगी.

संस्था की विशेष आमसभा में कार्य संचालन हेतु प्रस्तावित निम्नांकित कार्यकारिणी समिति तीन माह हेतु नामांकित की जाती है, जो उपर्युक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी.

नामांकित कार्यकारिणी :-

1. सुभाष श्यामलाल	अध्यक्ष
2. सुशीला रमेश	उपाध्यक्ष
3. महादेव जगदीश	संचालक
4. रितेश रणछोड	संचालक
5. भुपेन्द्र लोकेश	संचालक
6. राजेश गणेश	संचालक
7. रजनी महादेव	संचालक
8. बिहारी डालूराम	संचालक
9. सुशील कन्हैयालाल	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 20 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(501)

बी. एस. अलावा,  
उप-पंजीयक.





# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर 2015-भाद्र 27, शके 1937

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 20 मई, 2015

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील डबरा, भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), सागर, रेहली, गढ़ाकोटा (सागर), सिरमौर, हजूर (रीवा), बांधवगढ़, मानपुर (उमरिया), बुरहानपुर, नेपानगर (बुरहानपुर), घोड़ाडोंगरी, बैतूल, मुल्ताई (बैतूल), जबलपुर (जबलपुर), नैनपुर, मण्डला, नारायणगंज (मण्डला), डिण्डोरी (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, सोंसर, अमरवाड़ा, चौरई, बिछुआ, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील ग्वालियर (ग्वालियर), आठनेर (बैतूल) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला ग्वालियर, मंदसौर, आगर, झाबुआ, खरगौन, सिवनी में खरीफ फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.— ..

4. फसल स्थिति.— ..

5. कटाई.— ..

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, टीकमगढ़, सागर, उमरिया, नीमच, बड़वानी व नरसिंहपुर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 20 मई, 2015

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अम्बाह	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगाढ़	..				
6. कैलारस	..				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. श्योपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	..				
<b>जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली अधिक (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	17.5				
2. डबरा	1.6				
3. भितरवार	1.0				
4. घाटीगांव	12.0				
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..		4. (1) गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	..				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला अशोकनगर:</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
<b>जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राधोगढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
<b>जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
<b>*जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. लोण्डी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गौरीहार	..		(2) ..		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) मूँग, जौ, राई-सरसों, अलसी, प्याज	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	..		तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल, गेहूँ,		
4. पवई	..		चना, मसूर, आलू कम.		
5. शाहनगर	..		(2) ..		
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	..		समान.		
4. सागर	4.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	5.2				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	15.0				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूंग, उड़द. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, सरसों कम. अलसी समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिहपुर	..				
<b>जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों अधिक. मसूर, अलसी, अरहर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	9.0				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	5.0				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकुर्लियाण	..				
<b>*जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	0.8				
2. पाली	..				
3. मानपुर	7.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिहावल	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
<b>जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	..				
<b>जिला मन्दासौर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. सुवासरा-टप्पा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धड़का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
<b>जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	..				
<b>*जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावरा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आलोट	..		(2) ..		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
<b>जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़ौद	..		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. थांदला	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. मेघनगर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जोवट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	..		4. (1) गन्ना अधिक. चना, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
<b>जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूंगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		अलसी, राई-सरसों, अधिक. ज्वार,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..		धान, तुअर, गेहूँ, चना कम.		
4. खरगौन	..		(2) ..		
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
<b>*जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..		(2) ..		
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	9.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	6.0				
<b>जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..		(2) ..		
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचौर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..	..	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लगंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		अधिक. चना, मसूर, लाख, तिवड़ा	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	..		कम.		
4. गौहरगंज	..		(2) ..		
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	15.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	1.0				
6. मुलताई	8.8				
7. आठनेर	20.5				
8. आमला	..				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) मूंगमोठ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
<b>*जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. ...	8. ..
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..		4. (1) मूंग अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	0.4				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				



1	2	3	4	5	6
<b>जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना, गेहूँ, मसूर, मटर अधिक. सोयाबीन, चना कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..				
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	..				
2. बिछिया	..				
3. नैनपुर	3.6				
4. मण्डला	9.6				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	1.6				
<b>जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, मटर बिगाड़ी हुई. राई-सरसों, अलसी समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	8.2				
2. बजाग	..				
3. शाहपुरा	..				
<b>जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	9.4				
2. जुन्नारदेव	4.8				
3. परासिया	3.0				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	4.0				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	2.2				
8. चौरई	17.0				
9. बिछुआ	3.5				
10. हरई	..				
11. मोहखेड़ा	3.2				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, मूँगफली, गन्ना अधिक. ज्वार, कोदो-कुटकी, सोयाबीन, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों कम. तिल, सन, चना समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..				
2. केवलारी	..				
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
<b>जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..				
2. लाँजी	..				
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— \*जिला अशोकनगर, छतरपुर, शहडोल, रतलाम, खण्डवा, हरदा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,  
आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(497)